



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} =$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{3}{2} =$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{3}{2} =$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{5}{8} =$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{4}{7} =$$

$$\frac{5}{6} \times \frac{2}{9} =$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{16}$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{7}$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{14}$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{3}{2} = 1$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{5}{8} = \frac{15}{56}$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{8}{35}$$

$$\frac{5}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{5}{27}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$